



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2003 (भाद्रपद 22, 1925)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2003 (BHADRA 22, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2003

सेना शाखा

महानिदेशालय, राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं. ए/46421/रा. अ. म./मु. प्र. अ./प्र-2 (ख)--राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7 (8) के अंतर्गत स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में 28 अप्रैल, 2003 से 24 अगस्त, 2003 तक या नियमित पदधारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, उस समय तक नियुक्त करते हैं।

1. श्री विजेन्द्र सिंह

2. श्रीमती रुबिका वेंकटरमन

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जा रही है तथा प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

3. इस अधिकारी का उपर्युक्त पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई

दावा नहीं होगा और न ही अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा, नियम 7(8) के अंतर्गत वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी।

4. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में इस विभाग द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में किसी आवश्यक आशोधन तथा अन्य किसी न्यायिक मामलों के, जिसका सहायक ग्रेड की वरिष्ठता पर असर पड़ता हो, अध्यक्षीन होगी।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

नेवी ब्रॉच

नौसेना मुख्यालय

सं. 516, दिनांक 06 अगस्त, 03.--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक श्री आर के साहनी, को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत दिनांक 02.06.2003 से 24.08.2003 तक की अवधि तक या नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय

तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7 (8) के अन्तर्गत दिनांक 21.05.2003 से 24.08.2003 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग

अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं।

(क) श्री जी एी कन्सल

(ख) श्रीमती गोपी खुशलानी

ये नियुक्तियाँ पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती हैं।

सन्तोष दासगुप्ता
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

तटरक्षक मुख्यालय

सं. 571, दिनांक 08 अगस्त 03.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तारीख से तटरक्षक में सहायक कमांडेंट जी डी/तकनीकी के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र.स.	नाम	नियुक्ति	कार्य ग्रहण तिथि	आबंटित व्यक्ति नं.
2		3	4	5
सामान्य ड्यूटी				
1)	लक्ष्म शर्मा	तटरक्षक में 02 वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त	10 जनवरी 2003	0604-वी
2)	अशोक कुमार भामा	--तदैव--	11 जनवरी 2003	0605-एक्स
(3)	शिव प्रसाद एस	--तदैव--	--तदैव--	0606-सी
(4)	जितेन्द्र यादव	--तदैव--	--तदैव--	0607-डी
(5)	वरुण उम्रध्याय	--तदैव--	--तदैव--	0608-ई
(6)	रत्नाकर प्रसाद गुप्ता	--तदैव--	--तदैव--	0609-जे
(7)	सिद्धार्थ भण्डारी	--तदैव--	--तदैव--	0610-एल
(8)	बी विनय कुमार	--तदैव--	--तदैव--	0611-एम
तकनीकी				
(9)	रोशन कुमार खण्डारे	तटरक्षक में 02 वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त	10 जनवरी 2003	5074-ई
(10)	वरुण अगस्त्या	--तदैव--	11 जनवरी 2003	5075-जे
(11)	हरी प्रसाद	--तदैव--	--तदैव--	5076-एल
(12)	गौरव सिन्हा	--तदैव--	--तदैव--	5077-एम
(13)	कमल कुमार बहुगुणा	--तदैव--	--तदैव--	4120-एम
(14)	यू रामलिंग राजू	--तदैव--	--तदैव--	4121-पी
(15)	ऐंजेलो इन्नोसेंट देवासिगकमणी	--तदैव--	--तदैव--	4122-क्यू
(16)	किरण एस सारंग	--तदैव--	--तदैव--	4123-एस

1	2	3	4	5
(17) नरेन्द्र कुमार	तटस्थक में 02 वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त		11 जनवरी 2003	4124-वी
(18) राजबीर दलाल	--तदैव--		--तदैव--	4125-एक्स
(19) नरेश कुमार शर्मा	--तदैव--		--तदैव--	4126-सी
(20) वी रामसाभी	--तदैव--		10 अप्रैल 2003	5078-पी
(21) ए. के. पाण्डे	--तदैव--		--तदैव--	4127-डी
(22) एस थंकचन	--तदैव--		--तदैव--	4128-ई

एम. एम. सुकुमान
अवर सचिव (कार्मिक)

(सेना शाखा)

सं. 518, दिनांक 07 अगस्त 03,--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथि से करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मूल मेजर के रैंक में

वी-460एफ कप्तान वी के जोशी, आर वी सी--16.12.2002

सेना सेवा कोर (यान्त्रिक परिवहन)

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

सूबेदार (आर टी)

नायब सूबेदार (पंडित) जय प्रकाश नारायण मिश्रा (जेसी-660079पी), 22 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

सूबेदार (एम टी)

नायब सूबेदार प्रेम लामा (जेसी-661540एम), 27 जनवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 27 अगस्त 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार योग्य नारायण त्रिपाठी (जेसी-661563एन), 27 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 27 अगस्त 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार करनी सिंह (जेसी-661631डब्ल्यू), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार प्यारे लाल गुप्ता (जेसी-661634एच), 15 जुलाई 2002

नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-661718एक्स), 01 अक्टूबर 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 27 अगस्त 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार चित्रा सेन (जेसी-661728एफ), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार राधे लाल वर्मा (जेसी-661729के), 19 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार शितला मणी मिश्रा (जेसी-661984डब्ल्यू), 26 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार किल्ली चन्द्र मणी (जेसी-661662डब्ल्यू), 25 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रमेश सिंघ नाथ (जेसी-661663वाई), 25 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार पोली कार्प टिकी (जेसी-661703पी), 10 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राम बाबु यादव (जेसी-661719ए), 09 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अर्जुन लाल राय (जेसी-661977ए), 30 जनवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार उमेश कुमार (जेसी-661743डब्ल्यू), 23 जनवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार फते बहादुर राय (जेसी-661801पी), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार राजेन्द्र राय (जेसी-661773 एन), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार आलोक कुमार मिश्रा (जेसी-661747एम), 05 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-661830के), 14 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार श्रीचरन प्रधान (जेसी-661804एच), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार राम सुन्दर यादव (जेसी-661819एल), 12 दिसम्बर 2002*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार श्री कृष्ण (जेसी-661751पी), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-661755एल), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार सुदर्शन नायक (जेसी-661760डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार सीता राम सिंह (जेसी-661761वाई), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार सुमेर चन्द जोगी (जेसी-661762एफ), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार उमेश चन्द्र तिवारी (जेसी-661763के), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार शिव नारायण सिंह (जेसी-661873वाई), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार होशियार सिंह सुशाल (जेसी-661789वाई), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार रामजी राय (जेसी-661766एक्स), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार राम शंकर निशाद (जेसी-661813के), 20 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार श्याम बिहारी (जेसी-661814एम), 21 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह डिनोडिया (जेसी-661821एफ), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार वकील सिंह (जेसी-661792वाई), 03 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अवधेश प्रसाद सिंह (जेसी-661822एल), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार श्याम मणी (जेसी-662061एक्स), 03 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-661852एच), 03 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार शिव बालक दिक्षीत (जेसी-661872डब्ल्यू), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार बासुदेव मंडल (जेसी-661828एम) 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार चुना राम (जेसी-661834ए), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-661835एच), 08 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-661838पी), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर सिंह (जेसी-661640एक्स), 12 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मोहम्मद तकिस्स आलम (जेसी-661647एफ), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार लाल बाबु सिंह (जेसी-661694वाई), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-661740एच), 14 फरवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लक्ष्मी प्रसाद दुबे (जेसी-661776एफ), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार राम औतार (जेसी-661752एक्स), 22 जनवरी 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कैलाश चन्द रीगर (जेसी-661767ए), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार गोपाल राम गुर्जर (जेसी-661794के), 13 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार एम. डी. अब्दुल हमीद शेख (जेसी-661816एक्स), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-661769एल), 03 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-661849एच), 10 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार प्रभु नाथ यादव (जेसी-661831एम), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार हरिनन्दन शर्मा (जेसी-661833एक्स), 05 मार्च 2003*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विध्याधरन एम सी (जेसी-661840एन), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार आनन्द प्रकाश कौशिक (जेसी-661713वाई), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार (एम टी)

हवलदार तेज भान जैसवाल (नं. 13875620वाई अब जेसी-662538एफ), 01 अप्रैल 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

हवलदार धीरन्द्र प्रसाद चौधरी (नं. 13870718एच अब जेसी-662539के), 11 अप्रैल 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

हवलदार हरस्वरूप (नं. 13869420एम अब जेसी-662540वाई), 14 अप्रैल 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार शिव कुमार राम (नं. 13865780एल अब जेसी-662541एफ), 06 मई 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार रघु नाथ मिश्रा (नं. 13865854पी अब जेसी-662542के), 19 अप्रैल 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (नं. 13865897के अब जेसी-662543एम), 12 मई 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार मिलाप सिंह (नं. 13875945एम अब जेसी-662544पी), 07 अप्रैल 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार देवराज साहु (नं. 13865675पी अब जेसी-662545एक्स), 12 मई 2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार श्रीनिवास तिवारी (नं. 13880105डब्ल्यू अब जेसी-662546ए), 01 अप्रैल 2003

हवलदार हियुरेम इबोम्बा सिंह (नं. 13876188डब्ल्यू अब जेसी-662547एच), 01 अप्रैल 2003

हवलदार पुजारु गोयरी (नं. 13876264डब्ल्यू अब जेसी-662548एल), 01 अप्रैल 2003

हवलदार कृष्णा प्रसाद रावा (नं. 13876312एल अब जेसी-662549एम), 01 अप्रैल 2003

रा. चतुर्दी
अवर सचिव

सं. 519, दिनांक 12 अगस्त 03.---थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 4/96 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति स्वरूप निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

लैफ्टि. कर्नल से कर्नल के पद पर

एच के ठोंवरे (डी आर-10347ए), 15.06.2002, परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 01.03.02 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

राजेश फक्का (डी आर-10400ए), 08.12.2002, परन्तु वैकल्पिक वरिष्ठता 01.11.02 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

जे. एल. शर्मा
ले. जनरल
डी जी डी एस

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(स्थायी कमीशन)

(लैफ्टिनेंट कर्नल टी एस से लैफ्टिनेंट कर्नल)

सं. 520, दिनांक 11 अगस्त 03.---राष्ट्रपति, प्रत्येक अधिकारी के सम्मुख दर्शाई गई तारीख से निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

श्रीमती टी के भुटिया (एन आर-16269के), 10.04.2001
 श्रीमती लिजी राजन (एन आर-16094एम), 26.04.2001
 श्रीमती एस निनान (एन आर-16173पी), 31.03.2001/14.03.2002
 श्रीमती गुरिन्द्र जीत कौर (एन आर-16183एल), 24.04.2002/
 14.03.2002
 श्रीमती बी कावेरी (एन आर-16187एफ), 01.09.2002/
 14.03.2002
 श्रीमती इन्दिरा कुमारी (एन आर-16196एच), 01.05.2002/
 14.03.2002
 श्रीमती पी मराठा दास (एन आर-16214ए), 14.03.2002

यू सिकदर
 मेजर जनरल
 ए डी जी एम एन एस

वायु सेना शाखा

सं. 521, दिनांक 12 अगस्त 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से उनके सेवा कार्य पूरा होने/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मंजूर होने पर प्रसन्नतापूर्वक सेवानिवृत्त करते हैं।

सी जी ओ (ए)

श्री सुब्बा राव, 31 मई 2001
 श्री एस ए राशिद, 30 जून 2001
 श्री ए के श्रीवास्तव, 30 जून 2001
 श्री शेर सिंह, 31 जुलाई 2001
 श्री रणधीर सिंह, 30 सितम्बर 2001
 श्री एम एच पाला, 31 दिसम्बर 2001
 श्री प्रताप सिंह, 31 जनवरी 2002

श्रीमती उषा नरसैकर, 31 जनवरी 2002
 श्री एम एल कुरील, 31 मार्च 2002
 श्री पियारा सिंह, 30 अप्रैल 2002
 श्री ए एस वैद्यनाथन, 30 अप्रैल 2002
 श्री एस के मैत्रा, 31 मई 2002
 श्री एस के साह, 30 जून 2002
 श्री आर एस यादव, 30 जून 2002
 श्री बी के यू पिस्टई, 31 जुलाई 2002
 श्री डी के रे, 31 अगस्त 2002
 श्री बी बालाकृष्णन, 31 अगस्त 2002
 श्री श्रवण कुमार, 31 अगस्त 2002
 श्री जी टी जगताप, 31 अगस्त 2002
 श्री वाई सिंह, 31 अक्टूबर 2002
 श्री जे एन सत्यनारायण, 30 नवम्बर 2002
 श्री एस के शर्मा, 30 नवम्बर 2002
 श्री एस रंगराजन, 30 नवम्बर 2002
 श्री आर पी सिंह, 31 जनवरी 2002
 श्री आर सी कुरील, 31 जनवरी 2002
 श्री मनोहर लाल, 31 मई 2003
 श्री के वीर रघु, 31 मई 2003
 श्रीमती बी डी बेदिम्बाल, 31 मई 2003
 श्रीमती कमला बी रामु, 30 जून 2003

सुधीर मोहन सेठी
 संयुक्त निदेशक की असेनिक

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13 September 2003

ARMY BRANCH

DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET
CORPS

No. A/46546/DGN/CAO/A-2 (B).—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Services as officiating Section Officer under Rule 7 (8) of AFHQ Civil Services Rules 2001 with effect from 28th April 2003 to 24th August 2003 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

1. Shri Vijendra Singh

2. Smt. Radhika Venkataraman

2. The appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. The officer will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will his service rendered as Section Officer under Rule 7 (8) reckon for seniority.

4. The appointment is subject to any modification that may become necessary in course of implementation of direction of the Hon'ble High Court of Delhi in WP filed by the department and also any other court cases that may have a bearing on the seniority in the grade of Assistant.

SANTOSH DASGUPTA

Dy. Chief Administrative Officer (A)

NAVY BRANCH

NAVAL HEADQUARTERS

No. 516, dated 06th August 03.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Sahni, Assistant of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 under Rule 7 (8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 02.06.2003 to 24.08.2003 or till regular incumbent become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 under Rule 7 (8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 21.05.2003 to 24.08.2003 or till regular incumbent become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

(a) Shri G. C. Kansal

(b) Smt. Gopi Khushalani

2. This appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA

Dy. Chief Administration Officer (A)

COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 517, dated 08 August 03. — The President is pleased to appoint following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each:—

S.No.	Name S/Shri	Appointment	Date of Joining	Personal No.
1	2	3	4	5
	(General Duty)			
(a)	Lakshya Sharma	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years	10.01.2003	0604-V
(b)	Ashok Kumar Bhama	-do-	11.01.2003	0605-X
(c)	Sivaprasad S	-do-	-do-	0606-C
(d)	Jitender Yadav	-do-	-do-	0607-D
(e)	Varun Upadhya	-do-	-do-	0608-E
(f)	Ratnakar Prasad Gupta	-do-	-do-	0609-J
(g)	Sidharth Bhandari	-do-	-do-	0610-L
(h)	B Vinaya Kumar	-do-	-do-	0611-M

1	2	3	4	5
Technical				
(i)	Roshan Kumar Khandrare	Appointed as Asstt. Comdt (Tech) in pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years	10.01.2003	5074-E
(j)	Varun Augustya	-do-	11.01.2003	5075-J
(k)	Hariprasad B	-do-	-do-	5076-L
(l)	Gaurav Sinha	-do-	-do-	5077-M
(m)	Kamal Kumar Bahuguna	-do-	-do-	4120-M
(n)	U Ramalinga Raju	-do-	-do-	4121-P
(o)	Angello Innocent Devasigamani	-do-	-do-	4122-Q
(p)	Kiran S Sarang	-do-	-do-	4123-S
(q)	Narendra Kumar	-do-	-do-	4124-V
(r)	Rajbir Dalal	-do-	-do-	4125-X
(s)	Naresh Kumar Sharma	-do-	-do-	4126-C
(t)	V Ramasamy	-do-	10.04.2003	5078-P
(u)	A K Pandey	-do-	-do-	4127-D
(v)	S Thankachan	-do-	-do-	4128-E

M. N. SUKUMARAN
Under Secy. (Pers)

(ARMY BRANCH)

No. 518, dated 07th August 03.—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against his name:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Substantive Major

Capt VK Joshi (V-460F), RVC—16.12.2002

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(MECHANICAL TRANSPORT)

To be Subedar (RT)

Naib Subedar (Pandit) Jai Prakash Narayan Mishra (JC-600079P), 22 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

To be Subedar (MT)

Naib Subedar Prem Lama (JC-661540M), 27 Jan 2003*

*(Date of seniority wef 27 Aug 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Yagya Narayan Tripathi (JC-661563N), 27 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 27 Aug 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Karni Singh (JC-661631W), 01 Jul 2002

Naib Subedar Pyare Lal Gupta (JC-661634H), 15 Jul 2002

Naib Subedar Sudarshan Singh (JC-661718X), 01 Oct. 2002*

*(Date of seniority wef 27 Aug 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Chitra Sen (JC-661728F), 01 Sep 2002*

Naib Subedar Radhey Lal Verma (JC-661729K), 19 Feb. 2003*

*(Date of seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Shitla Mani Mishra (JC-661984W), 26 Feb. 2003*

*(Date of seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Killi Chandra Mani (JC-661662W), 25 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Ramesh Ch. Nath (JC-661663Y), 25 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Poli Karp Tirkey (JC-661703P), 10 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Ram Babu Yadav (JC-661719A), 09 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Achhe Lal Ram (JC-661977A), 30 Jan 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Umesh Kumar (JC-661743W), 23 Jan 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Fate Bahadur Rai (JC-661801P), 01 Nov 2002

Naib Subedar Rajendra Ray (JC-661773N), 01 Nov 2002

Naib Subedar Alok Kumar Mishra (JC-661747M), 05 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Virendra Singh (JC-661830K), 14 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Sricharan Pradhan (JC-661804H), 01 Dec 2002

Naib Subedar Ram Sundar Yadav (JC-661819L), 12 Dec 2002*

*(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Shri Krishan (JC-661751P), 01 Dec 2002

Naib Subedar Govind Singh (JC-661755L), 01 Jan 2003

Naib Subedar Sudarsen Nayak (JC-661760W), 01 Feb 2003

Naib Subedar Sita Ram Singh (JC-661761Y), 01 Feb 2003

Naib Subedar Sumer Chand Jogi (JC-661762F), 01 Feb 2003

Naib Subedar Umesh Chandra Tiwari (JC-661763K), 01 Feb 2003

Naib Subedar Shiv Narayan Singh (JC-661873Y), 01 Feb 2003

Naib Subedar Hoshiar Singh Shusal (JC-661789Y), 01 Feb 2003

Naib Subedar Ramji Rai (JC-661766X), 01 Feb 2003

Naib Subedar Ram Shankar Nishad (JC-661813K), 20 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Shyam Bihari (JC-661814M), 21 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Jagdish Singh Dinodia (JC-661821F), 01 Feb 2003

Naib Subedar Wakil Singh (JC-661792Y), 03 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Awadhesh Prasad Singh (JC-661822L), 01 Mar 2003

Naib Subedar Shyam Mani (JC-662061X), 03 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Sube Singh (JC-661852H), 03 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Shiv Balak Dixit (JC-661872W), 01 Mar 2003

Naib Subedar Basudev Mondal (JC-661828M), 01 Mar 2003

Naib Subedar Chuna Ram (JC-661834A), 01 Mar 2003

Naib Subedar Parmod Kumar (JC-661835H), 08 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Vijay Pal Singh (JC-661838P), 01 Mar 2003

Naib Subedar Shyam Sunder Singh (JC-661640X), 12 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Mohammad Taksir Alam (JC-661647F), 01 Aug 2002

Naib Subedar Lal Babu Singh (JC-661694Y), 01 Oct 2002

Naib Subedar Joginder Singh (JC-661740H), 14 Feb 2003*

*(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Laxmi Prasad Dubey (JC-661776F), 01 Nov 2002

Naib Subedar Ram Awtar (JC-661752X), 22 Jan 2003*

*(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Kailash Chand Regar (JC-661767A), 01 Feb 2003

Naib Subedar Gopal Ram Gurjar (JC-661794K), 13 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Md Abdul Hamid Shaikh (JC-661816X), 01 Mar 2003

Naib Subedar Rajendra Singh (JC-661769L), 03 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Vijay Pal Singh (JC-661849H), 10 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Prabhu Nath Yadav (JC-661831M), 01 Mar 2003

Naib Subedar Harinandan Sharma (JC-661833X), 05 Mar 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Naib Subedar Vidyadharan MC (JC-661840N), 01 Apr 2003

Naib Subedar Anand Prakash Kaushik (JC-661713Y), 01 Aug 2002

TO BE NAIB SUBEDAR (MT)

Havildar Tej Bhan Jayasbal (No 13875620Y now JC-662538F), 01 Apr 2003*

*(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Havildar Dhirender Prasad Chaudhary (No 13870718H now JC-662539K), 11 Apr 2003*

*(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

Havildar Harswaroop (No 13869420M now JC-662540Y), 14 Apr 2003*

*(Date of seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces)

Havildar Shiv Kumar Ram (No 13865780L now JC-662541F), 06 May 2003*

*(Date of seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Havildar Raghu Nath Mishra (No 13865854P now JC-662542K), 19 Apr 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Havildar Rajendra Prasad (No 13865897K now JC-662543M), 12 May 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Havildar Milap Singh (No 13875945M now JC-662544P), 07 Apr 2003*

*(Date of seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces)

Havildar Dev Raj Sahu (No 13865675P now JC-662545X), 12 May 2003*

*(Date of seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces)

Havildar Shriniwas Tiwari (No 13880105W now JC-662546A), 01 Apr 2003

Havildar Hurem Ibomcha Singh (No 13876188W now JC-662547H), 01 Apr 2003

Havildar Pujaru Goyari (No 13876264W now JC-662548L), 01 Apr 2003

Havildar Krishna Prasad Rava (No 13876312L now JC-662549N), 01 Apr 2003

R. CHATURVEDI
Under Secy.

No. 519 dated 12 August, 2003. The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended vide AI 4/96:—

REGULAR ARMY ARMY DENTAL CORPS PERMANENT COMMISSION

Lt. Col to be Col

HK Thombre (DR-10347A) 15-06-2002 with notional seniority from 01-03-2002, without effect on pay & allowances

Rajesh Phakka (DR-10400A) 08-12-2002 with notional seniority from 01-11-2002, without effect on pay & allowances

J.L. SHARMA
Lt. Gen. DGDS

**MILITARY NURSING SERVICES
(PERMANENT COMMISSION)**

No. 520, dated 11 August, 2003.—The President is pleased to make the following promotion with effect from the dates mentioned against each name:—

(Lt Col TS to Lt Col Select)

Name	NR No.	Date of Promotion	Notional Seniority
Mrs TK Bhutia	NR-16269K	10-04-2001	
Mrs Lizy Rajan	NR-16094M	26-04-2001	
Mrs S Ninan	NR-16173P	31-03-2002	14-03-2002
Mrs Gurinder Jeet Kaur	NR-16183L	24-04-2002	14-03-2002
Mrs V Kaveri	NR-16187F	01-09-2002	14-03-2002
Mrs Indira Kumari	NR-16196H	01-05-2002	14-03-2002
Mrs P Maratha Das	NR-16214A	14-03-2002	

USHA SIKDAR
Major General
Addl Dir Gen MNS

AIR FORCE BRANCH

No. 521, dated 12 August, 2003.—The President is pleased to make the following voluntary retirement/retirement on superannuation:—

CGO(A)

Sh Subba Rao, 31 May 2001

Sh SA Rasheed, 30 June 2001

Sh AK Srivastava, 30 June 2001

Sh Sher Singh, 31 Jul 2001

Sh Randhir Singh, 30 Sep 2001

Sh MH Pala, 31 Dec 2001

Sh Pratap Singh, 31 Jan 2002

Smt Usha Nerlakar, 31 Jan 2002

Sh ML Kureel, 31 Mar 2002

Sh Piara Singh, 30 Apr 2002

Sh AS Vaidyanathan, 30 Apr 2002

Sh SK Maitra, 31 May 2002

Sh SK Shsh, 30 Jun 2002

Sh RS Yadav, 30 Jun 2002

Sh VKU Pillai, 31 Jul 2002

Sh DK Ray, 31 Aug 2002

Sh V Balakrishnan, 31 Aug 2002

Sh Servan Kumar, 31 Aug 2002

Sh GT Jagtap, 31 Aug 2002

Sh Y Singh, 31 Oct 2002

Sh JN Satyanarayanan, 30 Nov 2002

Sh SK Sharma, 30 Nov 2002

Sh S Rangarajan, 30 Nov 2002

Sh RP Singh, 31 Jan 2003

Sh RC Kureel, 31 Jan 2003

Sh Manohar Lal, 31 May 2003

Sh K Veeraraghu, 31 May 2003

Smt BD Vadivambal, 31 May 2003 (Vol Retd)

Smt Kamla V Ramu, 30 Jun 2003

SM SETHI
JDPC